

प्रेस नोट दिनांक 18.01.2023 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

थाना बांसी पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित 15,000/- ₹ का एक इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में अनुज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 298/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित 15,000/- ₹ का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.पुद्दन उर्फ कुंदलन पुत्र चौथीहार साकिन तेलियाडीह थाना कोतवाली डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.अनुज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.उ0नि0 पवन कुमार रावत थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.हे0का0 जयप्रकाश पासवान थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 18-01-2023

साइबर सेल सिद्धार्थनगर ने **SBI BANK** का **CSP** दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता के खाते से फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि **65,200/- ₹** को वापस कराया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल सुबाष यादव व टीम साइबर सेल द्वारा विकाश चन्द्र जायसवाल कस्बा अलीगढवा थाना कपीलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण धनराशि **65200/- ₹** वापस कराये गए ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता विकास चन्द्र जायसवाल कस्बा अलीगढवा थाना कपीलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके **SBI BANK** का **CSP** दिलाने के नाम पर रूपये **65200** का फ्रॉड कर अपने खाते में जमा करा लिया गया । शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है । उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को दिया । शिकायत पर साइबर सेल की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक **17/01/2023** विकास चन्द्र जायसवाल के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये **65200/-** वापस कराया गया । साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए विकास चन्द्र जायसवाल द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

नोट- साइबर सेल सिद्धार्थनगर की टीम द्वारा **01.01.2022** से अब तक कुल धनराशि रूपये **2621138/-** शिकायतकर्ताओं के खातों में वापस कराये जा चुके हैं ।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम का विवरण-

- 1- निरीक्षक सुबाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उ0नि0 हरीओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- मुख्य आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

7- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

साइबर क्राइम से कैसे बचे-

- 1—साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।
- 2—ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्स्टैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।
- 3—अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों- जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों- जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।
- 4—वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता **https** ("s" से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।
- 5—ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।
- 6—साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाइन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।
- 7-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।
- 8-फोन पर कैश रिवाइड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।
- 9-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।
- 10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0 न0-8181818200 पर सम्पर्क करें।

🛑 साइबर ठगों से सावधान! 🛑 जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

#BeCyberSafe #GoodJobCop #UPPolice

प्रेस नोट दिनांक 18-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा 03 अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत आज दिनांक 18-01-2023 को चोरी/नकबजनी/गैंगेस्टर एक्ट/गुण्डा एक्ट इत्यादि में संलिप्त 03 अभ्यस्त अभियुक्तों के आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट खोली गयी। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत हिस्ट्रीशीट खोलने, गुण्डा एक्ट में कार्यवाही, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश सैनी पुत्र दिनेश सैनी निवासी सोहना थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना त्रिलोकपुर पर, करम चन्द्र उर्फ पिन्टू यादव पुत्र श्याम बहादुर यादव निवासी भतिजवापुर थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना पथरा बाजार पर, विनय कुमार तिवारी पुत्र भिष्मपिता मह तिवारी निवासी परसा शाह आलम थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना सिद्धार्थनगर पर व शुभम यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी बर्डपुर नं07 टोला पड़ितपुर बड़नी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना कपिलवस्तु पर हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिन पर संबंधित थानों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जायेगी।

अभियुक्त मुकेश सैनी पुत्र दिनेश सैनी का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 173/2021 धारा 379 भादवि0 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

02-मु0अ0सं0 18/2022 धारा 379,411,413,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

- 03-मु0अ0सं0 19/2022 धारा 379,411,413,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04-मु0अ0सं0 20/2022 धारा 41/411/379/413/414/419/420/467/468/471 भादवि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- मु0अ0सं0 159/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर अधि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त करम चन्द्र उर्फ पिन्टू यादव पुत्र श्याम बहादुर यादव का आपराधिक इतिहास-

- 01-मु0अ0सं0 181/2019 धारा 461/379/411 भादवि0 व 25 भारतीय तार अधि0 थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।**
- 02-मु0अ0सं0 231/2019 धारा 379/411/461 भादवि0 व 25 भारतीय तार अधि0 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03-मु0अ0सं0 119/2019 धारा 379 भादवि0 थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 04-मु0अ0सं0 39/2021 धारा 323,504,352,308 भादवि0 थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05-मु0अ0सं0 31/2022 धारा 201,379,411,413,461 भादवि0 व 25 भारतीय तार अधिनियम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06-मु0अ0सं0 Nil/2022 धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 07-मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 Nil/2022 धारा 110 (G) थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त विनय कुमार तिवारी पुत्र भिष्मपितामह तिवारी का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 1736/2017 धारा 357/480/411 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-मु0अ0सं0 04/2018 धारा 357/411/480 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-मु0अ0सं0 22/2018 धारा 357/411/480 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

04-मु0अ0सं0 148/2019 धारा 357/411/480 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

05-मु0अ0सं0 166/2019 धारा 357/411/480 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त शुभम यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 182/2018 धारा 379 भा0द0वि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-मु0अ0सं0 57/2019 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

03-मु0अ0सं0 76/2019 धारा 41/411/413/419/420 भा0द0वि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

04-मु0अ0सं0 188/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

05-मु0अ0सं0 117/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट- दिनांक 18.01.2023 थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर ।

थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा ₹15,000/- के इनामिया गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में दीपक कुमार, थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया के नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2023 को थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2022 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त को ग्राम गौहनिया चिल्हिया शोहरतगढ़ मुख्य मार्ग थाना चिल्हिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.वीरेन्द्र निषाद पुत्र राम खेलावन निवासी नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.थानाध्यक्ष दीपक कुमार थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. उ0नि0 संजीत सिंह थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.आरक्षी आलोक रंजन यादव यादव थाना चिल्हिया,जनपद सिद्धार्थनगर ।

04. आरक्षी रवि कुमार जायसवाल थाना चिल्हिया,जनपद सिद्धार्थनगर ।



प्रेस नोट दिनांक 18.01.2023 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

थाना मोहाना पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.01.2023 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा फौज वाद संख्या 4175/2000 धारा 406 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र मो० इस्लाम निवासी कस्बा बर्डपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को कस्बा बर्डपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सिकन्दर पुत्र मो० इस्लाम निवासी कस्बा बर्डपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. निरीक्षक संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. उ०नि० सभाशंकर यादव चौकी प्रभारी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. आरक्षी लालबहादुर भारती थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना मोहाना पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 44 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल ₹ 14,32,520/- के राजस्व की प्राप्ति की गई। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 595 वाहनों की नीलामी कर ₹ 83,13,460/- राजस्व प्राप्त किया गया।

Regards

Amit Kumar Anand
SP Siddharthnagar

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.01.2023 थाना डुमरियागंज

जनपद सिद्धार्थनगर व बस्ती के विभिन्न स्थानों से बैट्री चोरी करने वाले 03 अन्तर्जनपदीय चोरों को थाना डुमरियागंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की गयी 07 अदद बैट्री व घटना में प्रयुक्त एक अल्टो कार बरामद।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक देवनन्दन उपाध्याय थाना डुमरियागंज के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.01.2023 को थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2023 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित 03 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को राप्ती नदी पुल से समय करीब 12.30 बजे चोरी की 07 अदद बैट्री व घटना में प्रयुक्त एक अदद अल्टो कार नम्बर रजि0 नं0 UP55S8285 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 41,411 भादवि0 की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

पूछताछ का विवरण- पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा थानाक्षेत्र के डुमरियागंज करबे में ट्रैक्टर की बैट्री चोरी, थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में बैट्टीयों की चोरी तथा जनपद बस्ती में बैट्टी चोरी की घटनाये कारित किया जाना स्वीकार्य किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01.अलीउद्दीन पुत्र वाहिद अली निवासी देवरा बाजार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.जनाब अली पुत्र चांद अली उर्फ शमसेर निवासी बेलसड़ थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. सलमान पुत्र सुलेमान निवाली अरनी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण

01. सात अदद चोरी की बैट्टी ।

02. एक अदद अल्टो कार नम्बर UP55S8285 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक देवनन्दन उपाध्याय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. वकील पाण्डेय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

04. उपनिरीक्षक पंचदेव यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

05. मु0आ0 विकास सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

06. मु0आ0 श्याम सुन्दर मौर्या थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

07. आरक्षी दिनेश यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

08. आरक्षी भानु प्रताप सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

09. आरक्षी विशाल सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

10. आरक्षी तेज बहादुर यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

11. आरक्षी संदीप यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

12. आरक्षी अमन प्रतीक दूबे थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 18-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना मोहाना पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 44 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल ₹ 14,32,520/- के राजस्व की प्राप्ति ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 595 वाहनों की नीलामी कर ₹ 83,13,460/- राजस्व प्राप्त किया गया

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया । ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया । सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

आज दिनांक 18.01.2023 को अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर, बिन्देश गुप्ता नायब तहसीलदार सदर, बृजेश कुमार आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना मोहाना में लम्बित माल मुकदमाती, एमवीएक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 44 वाहनों जिसमें 34 दोपहिया वाहन (माल मुकदमाती-32, एम0वी0 एक्ट में सीज -02), 02 तीन पहिया वाहन (माल मुकदमाती-01, एम0वी0 एक्ट

में सीज-01) 07 चार पहिया वाहन मालमुकदमाती, 01बस एम0वी0 एक्ट में सीज की नीलामी थाना मोहाना परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल ₹14,32,520/- का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, थाना इटवा से 72 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना कपिलवस्तु से 26 वाहन, थान लोटन से 25 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, थाना उसका बाजार से 21 वाहन,थाना भवानीगंज से 14 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन, शिवनगर डिड़ई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है । अब तक कुल 595 वाहनों की नीलामी से कुल ₹ 83,13,460/- राजस्व की प्राप्ति हुई है ।





